



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 121]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 30, 1982/चैत्र 9, 1904

No. 121]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 30, 1982/CHAITRA 9, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1982

का.आ. 199(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, इलाहाबाद बैंक के अनुरोध पर 30 मार्च, 1982 से उत्तर प्रदेश राज्य में छत्रसाल ग्रामीण बैंक के नाम से एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के हमीरपुर तथा जालौन जिले की स्थानीय सीमाओं में कार्य करेगा।

[संख्या एफ. 1-16/82-आर.आर.बी. (1)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 29th March, 1982

S.O. 199(F)—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, being requested

1511 G1/81

so to do by Allahabad Bank, establishes, with effect from the 30th March, 1982 a Regional Rural Bank in the State of Uttar Pradesh under the name of Chhatrasal Gramin Bank which shall operate within the local limits of the districts of Hamirpur and Jalaun in the State of Uttar Pradesh.

[No. F. 1(16)/82-RRB(I)]

का.आ. 200(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा छत्रसाल ग्रामीण बैंक के प्रायोजक इलाहाबाद बैंक से परामर्श करके, जालौन जिले में उरई को उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है, जहाँ पर छत्रसाल ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[संख्या एफ. 1-16/82-आर.आर.बी. (2)]

S.O. 200(E)—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Allahabad Bank, by which Chhatrasal Gramin Bank has been sponsored, specifies Orai in Jalaun District as the place where Chhatrasal Gramin Bank shall have its head office

[No. F. 1-16/82-RRB(II)]

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1982

का.आ. 201(अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खंड (क)

(346)

के उपबन्ध (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त उपखंड के प्रयोजनों के लिए, छत्रसाल ग्रामीण बैंक, उरई को प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित एक संस्था के रूप में अधिसूचित करती है।

[संख्या एफ. 1-16/82-आर.आर.बी. (3)]

वी. पी. साहनी, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 30th March, 1982

S.O. 201(E).—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby notifies, for the purposes of the said sub-clause, Chhatrasal Gramin Bank, Orai being an institution established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

[No. F. 1-16/82-RRB(II)]

V. P. SAWHNEY, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1982

अधिसूचना

का.आ. 202(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा श्री वयाशंकर उपाध्याय को छत्रसाल ग्रामीण बैंक, उरई का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 31-3-1982 से प्रारम्भ होकर 31-3-1985 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसको दौरान श्री दया शंकर उपाध्याय अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ. 1-16/82-आर.आर.बी. (4)]

राम बेहरा, अवर सचिव

New Delhi, the 29th March, 1982

NOTIFICATION

S.O. 202(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government hereby appoints

Shri Daya Shankar Upadhyay as the Chairman of the Chhatrasal Gramin Bank, Orai and specifies the period commencing on the 30th March, 1982 and ending with the 31st March, 1985 as the period for which the said Shri Daya Shankar Upadhyay shall hold office as such Chairman.

[No. F. 1-16/82-RRB(IV)]

RAAM BEHRA, Under Secy.

भारतीय रिजर्व बैंक

ग्रामीण आयोजना तथा ऋण कक्ष, बम्बई

अधिसूचना

बम्बई, 30 मार्च, 1982

का.आ. 203(अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में धर्मांतरित बैंक को समाविष्ट किया जाये, अर्थात् :—

“छत्रसाल ग्रामीण बैंक उरई (उत्तर प्रदेश)”

[आर.पी.सी.सी. संख्या आर. आर. बी. 232/311/82]

एच. बी. शिवमग्गी, कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

RURAL PLANNING AND CREDIT CELL, BOMBAY

NOTIFICATION

Bombay, the 30th March, 1982

S.O. 203(E).—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely :—

“Chhatrasal Gramin Bank, Orai (U.P.)”.

[RPCC No. RRB 232/311-82]

H. B. SHIVAMAGGI, Executive Director